



(uten bilder)


|| nivå 4

hindil / nynorsk

Nandani

Wiehan de Jager

Zulu folktale



Honningguidens hemn

हनीगाइड का बदन

Barnebøker for Norge

barnebok.no




हनीगाइड का बदन / Honningguidens hemn
Skrivet av: Zulu folktale
Illustrert av: Wiehan de Jager
Oversatt av: Nandani (hi), Espen Stranger-
Johannessen, Martine Rørstad Sand (nn)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge (barnebok.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons

[Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens.](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no)

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no>



यह कहानी है गेड, एक हनीगाइड और एक लालची युवक गिंगइल की। एक दिन जब गिंगइल शिकार के लिए बाहर गया था तो उसने गेड की आवाज़ सुनी। गिंगइल के मन में शहद के बारे में सोच कर पानी आ गया। वह रुक गया, उसने ध्यान से सुना और टूटने लगा, जबतक कि उसे वह चिड़िया अपने सर के ऊपर डालियों में बैठी नहीं दिख गया। “चीटिक, चीटिक, चीटिक,” एक से दूसरे पेड़, और अगले पेड़ पे जाते हुए चिड़िया जोर से बोला। “चीटिक, चीटिक, चीटिक,” वह रुक रुक कर बोला, यह सुनिश्चित करते हुए कि गिंगइल उसके पीछे आ रहा है।

...


Dette er historia om Ngede, honningguiden, og ein grådig ung mann ved namn Gingile. Ein dag medan Gingile var ute på jakt, kalla Ngede på han. Gingile fekk vatn i munnen ved tanken på honning. Han stoppa og lytta oppmerksomt, og leitte til han såg fuglen i greinene over hovudet sitt. “Tsjitikk, tsjitikk, tsjitikk”, kvitra den vesle fuglen i det han flaug til det neste treet, og det neste. “Tsjitikk, tsjitikk, tsjitikk”, kalla han, og stoppa innimellom for å forsikra seg om at Gingile følgde etter.


Efter ein halvtime nådde dei eit stort vilt fikentre. Ngede hoppa rundt som ein galen blant greinene. Han slo seg ned på ei grein og strekte hovudet mot Gingile som om han sa: "Her er deti kom no! kvifor brukar du så lang tid?" Gingile kunne ikkje sjå nokre bier frå under treet, men han stolte på Ngede.

...

भरीसा लिक्या।

आधे घंटे बाद वे एक बड़े से अजीब के पेड़ के पास पहुँचे। गेड जालियाँ में पगलों सा फुटकने लगा। फिर वह एक जाली पे बैठ गया और सर हिलाया, मानो वह कह रहा हो कि, "यहाँ है वे! आओ अब! इतना समय क्यों लगा रहे हो?" सिंगिल को पेड़ पर कोई भी मधुमक्खी नहीं दिखी, लेकिन उसने गेड पे





इसलिए गिंगइल ने अपना शिकार का सामान पेड़ के नीचे रख दिया, और कुछ सूखी टहनियां इक्कट्टा की और एक छोटी सी आग जलाई। जब आग अच्छे से जलने लगी, तो उसने आग में एक लंबी सूखी लकड़ी आग के बीच में डाल दी। यह लकड़ी जलते हुए बहुत सारा धुंआ करने के लिए जानी जाती है। उसने चढ़ना शुरू किया, जलती हुई लकड़ी का ठंडा सिरा अपने मुंह में डाले हुए।


...

Så Gingile la spydet sitt ned under treet og samla nokre tørre kvistar og tende eit lite bål. Då elden brann godt, stakk han ein lang, tørr kjepp inn i hjartet av bålet. Denne veden var kjend for å laga mykje røyk medan han brann. Han byrja å klatra medan han heldt den kjølege enden av kjeppen mellom tennene.

जल्दी ही उसे काम में लगी मधुमक्खियों की अनभिनहित सुनाई देने लगी। वे पंज के नने में छेद-उनके छेदे में से अंदर-बाहर कर रही थीं। जब फिंगरल छेदे के पास पहुँचा उसने तकड़ी का धुआं वाला सिरा छेद में डाल दिया। मधुमक्खियाँ कड़बड़ा कर, गर्रसे में बाहर निकलीं। वो बाहर उड़ गई क्योंकि उन्हें धुआं नहीं पसंद-लेकिन इससे पहले वो फिंगरल को कुछ दंटे अरे डक दे गईं।

...


Snart kunne han høyra summinga til dei travle biene. Dei kom inn og ut av eit holrom i trestammen – bolet deira. Då Gingile nådde bolet, dytta han den rykande enden inn i holrommet. Biene fór ut, sinte og klare til angrep. Dei flaug bort sidan dei ikkje likte røyken – men ikkje før dei hadde gjeve Gingile nokre smertefulle stikk!




और इसलिये, जब फिंगरल के बच्चों ने गेट की कतनी सुनी, उनके मन में इस छोट्टी चिट्ठिया के लिए सम्मान था। जब भी वो शहर लेते थे, इस बात का ध्यान रखते थे कि वो छेदे का सबसे बड़ा हिस्सा हनीगाइड के लिए रखें।

...

Og på den måten, når borna til Gingile høyrer fortellinga om Ngede, respektterer dei den vesle fuglen. Kvar gong dei sankar honning sørger dei for å gje den største delen av voksaka til honningguiden!






जब मधुमक्खियां बाहर चली गईं, गिंगइल ने अपना हाथ छत्ते में डाला। उसने हाथ भर भर कर छत्ता निकाला, जिसमें से अच्छा शहद बह रहा था, और अविकसित मधुमक्खी के अंडे भी थे। उसने छत्ते को ध्यान से अपने कंधे पे टंगी थैली में डाला, और नीचे उतरना शुरू किया।

...

Då biene var ute, stakk Gingile handa si inn i bolet. Han tok ut handfuller med tunge vokskaker som draup av herleg honning og var fulle av feite, kvite larvar. Han la vokskakene forsiktig i veska han bar på skuldra og byrja å klatra ned frå treet.



इससे पहले कि तेंदुआ गिंगइल पे छलांग लगाता, वो हड़बड़ा कर पेड़ से नीचे आने लगा। जल्दबाज़ी में उस से एक डाल छूट गयी, वो बहुत जोर से जमीन पे गिरा, और उसका टखना मुड़ गया। वो लंगड़ाते हुए जितनी तेज भाग सकता था, भागा। उसकी खुशकिस्मत से, उसे पकड़ पाने के लिए, तेंदुआ अभी भी काफी नींद में थी। गेड, शहद का रास्ता दिखाने वाली चिड़िया ने अपना बदला ले लिया था। और गिंगइल ने अपनी सीख ले ली।

...


Før Leopard kunne svinga labben etter Gingile, skunda han seg ned frå treet. I hastverket bomma han på ei grein og landa med eit høgt brak på bakken og forstua ankelen. Han hinka vidare så fort han kunne. Heldigvis for han var Leopard enno for søvning til å jaga han. Ngede, honningguiden, hadde fått hemnen sin. Og Gingile hadde fått seg ein lærepenge.

Ngede sagð i vrig þá alt Gingile gjorde. Han venta þá at han skulle legja igjen ei tjukk vokskake som ei takkegáve til honninguiden. Ngede svinsa frá grein til grein, nærare og nærare bakken. Til slutt nádde Gingile foten av treet. Ngede sat þá ein stein nær guten og venta þá þáskjöninga sí.

...

लगा।

निगडल जाी भी कर रहा था, गीड बडित उर्यकता से वह सब कुछ देख रहा था। वह उसका डंतजार कर रहा था कि वह शहद के छत्ते का एक मोटा भाग उसके लिए छोटं देगा, हनीगाडड की धमवाद के रूप में। गीड डाल-डाल में झौल रहा था, जमीन के पास, और पास। आखिरकार निगडल पेड के नीचे पहुँच गया। गीड लडके के पास एक पत्थर में बैठ गया और अपने डनाम का डंतजार करने





Gingile klatra, men lurtu þá kvifor han ikkje hørde den sedvanlege summinga. "Kanskje bolu er djupt inne i treet", tenkte han for seg sjølv. Han drog seg opp etter ei anna grein. Men i staden for bolu, strá han inn i auga til ein leopard! Leopard var veldig sint fordi søvnen hennar var så brátt avbrute. Ho kneip att auga og opna munnen for á visa dei veldig lange og skarpe tennene sine.

...

दात सिखाने के लिए।

निगडल चढा, वे सोचते हैं एक उसे सामान्यतया सुनाई देने वाली मनभनाहट क्या नहीं सुनाई देती। "शायद छत्ता पेड में गहराई में है," उसने मन में सोचा। वो डिसरी वाली की तरफ बढ़ा। लेकिन छत्ते की जाह, उसने उसने खिडकी पर एक तैरु के चहरे की धरना पाया। तैरुआ अपनी नीटी तहरे से बडित गस्ते में थी। उसने अपनी आँखें छोटी की, अपना मूँह खोला अपना बडित बड़े और पेने






लेकिन, गिंगइल ने आग बुझाई, अपना शिकार का सामान उठाया और घर की तरफ चलने लगा, चिड़िया को नज़रअंदाज़ कर के। गेड गुस्से से चिल्लाया, “विक-टर, विक-टर!” गिंगइल रुका, उसने चिड़िया को घूरा और जोर से हँसा। “तुम्हें थोड़ा शहद चाहिए, चाहिए, मेरे दोस्त? हा! लेकिन सारा काम मैंने किया, और सारे डंक भी खाए। मुझे इस शहद अच्छे शहद को तुम्हारे साथ क्यों बाँटना चाहिए?” फिर वो चला गया। गेड बहुत गुस्से में था! यह कोई तरीका नहीं था उससे व्यवहार करने का! लेकिन वो अपना बदला लेगा।

...

Men Gingile sløkte bålet, plukka opp spydet, byrja å gå heim og oversåg fuglen. Ngede ropte sint: “SI-ger, SI-ger!” Gingile stoppa og stira på den vesle fuglen og lo høgt. “Du vil ha litt honning, du, vesle ven? Ha! Men eg gjorde alt arbeidet og fekk alle stikka. Kvifor skulle eg dela noko av denne herlege honningen med deg?” Ngede var rasande! Dette var då ingen måte å behandla han på! Men han skulle få hemnen sin.



एक दिन कई हफ़्तों बाद गिंगइल ने फिर गेड की शहद वाली आवाज़ सुनी। उसे स्वादिष्ट शहद याद आया और उसने फिर से चिड़िया का पीछा किया। गिंगइल को जंगल के छोर पर जाकर, गेड एक बड़े से बबूल के पेड़ पर आराम करने के लिए रुका। “आह,” गिंगइल ने सोचा। “छत्ता जरूर इसी पेड़ में है।” उसने जल्दी से छोटी सी आग जलाई और चढ़ना शुरू किया, उसके मुँह में जलती हुई लकड़ी थी। गेड बैठा और सब देखा।

...

Ein dag fleire veker seinare høyrde Gingile igjen kallet frå Ngede. Han hugsa den herlege honningen og følgde ivrig etter fuglen nok ein gong. Etter at han hadde leidd Gingile langs skogkanten, stoppa han for å kvila i eit stort akasietre. “Å”, tenkte Gingile. “Bolet må vera i dette treet.” Han tende raskt det vesle bålet sitt og byrja å klatra med den rykande greina mellom tennene. Ngede sat og venta.